



सराहनीय कार्य दिनांक 26.09.2022 थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का खुलासा कर अभियुक्त सूरतराम उर्फ सूत्रा को मय आला कत्ल किया गिरफ्तार ।

**घर, जमीन हड़पने के लालच में छोटे भाई ने की सगे बड़े भाई की हत्या ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद फिरोजाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए मु0अ0सं0 514/22 धारा 302 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सूरतराम उर्फ सूत्रा पुत्र स्व0 मेघ सिंह निवासी मिलावली थाना जसराना जिला फिरोजाबाद को पटीकरा नहर पुल से गिरफ्तार किया गया है ।

**घटना का विवरण:-** मृतक लाखन सिंह व अभियुक्त सूरतराम उर्फ सूत्रा दोनो सगे भाई थे । दोनों के माता-पिता का पहले ही देहान्त हो गया था । अभियुक्त सूरतराम उर्फ सूत्रा उपरोक्त नूरबानो नाम की महिला से प्रेम विवाह कर जनपद बदायूं में उसके घर पर ही रह रहा था छोटा भाई लाखन गांव में अकेला रहता था । दोनों भाईयों व मां मुन्नी देवी के हिस्से में 4-4 बीघे जमीन आती थी । अभियुक्त सूरतराम उर्फ सूत्रा ने अपनी व अपनी मां के हिस्से वाली जमीन पहले ही बेच दी थी तथा अपने भाई लाखन सिंह पर जमीन व घर बेचने का दबाव बना रहा था जिसके लिये मृतक लाखन सिंह तैयार नहीं था । अभियुक्त सूरतराम ने अपने भाई के हिस्से की घर व जमीन हड़पने की नियत से योजना बनाकर दिनांक 23-24.09.2022 को घर के अन्दर ही अपने भाई लाखन सिंह के सिर में ईंट मारकर हत्या कर फरार हो गया था । दिनांक 24.09.2022 को मृतक के परिजन श्री सतेन्द्र सिंह की तहरीर पर मु0अ0सं0 514/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त:-**

1. सूरतराम उर्फ सूत्रा पुत्र स्व: मेघसिंह निवासी मिलावली थाना जसराना जिला फिरोजाबाद ।

**अभियुक्त सूरतराम उर्फ सूत्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 514/22 धारा 302 भादवि0 थाना जसराना जिला फिरोजाबाद ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्र0नि0 आजादपाल सिंह थाना जसराना फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 अजीत मलिक चौकी प्र0 दिहुली थाना जसराना फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 मौहर सिंह चौकी प्र0पाढम थाना जसराना फिरोजाबाद ।
4. का0 574 रोहित कुन्डु थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।
5. का0746 चक्रमदन सिंह थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद ।